



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 3 जनवरी, 2022

पौष 13, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

खाद्य तथा रसद अनुभाग-6

संख्या 04/29-6-2022-115 सा-2014

लखनऊ, 3 जनवरी, 2022

अधिसूचना

प0आ0-18

चूँकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 20 सन् 2013) की धारा 40 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार जनसामान्य से आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित करने के लिये अधिसूचना संख्या 1747/29-6-2021-115 सा-14, दिनांक 7 अक्टूबर, 2021 प्रकाशित की गयी थी;

और, चूँकि, पूर्वोक्त अधिसूचना के अनुसरण में कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है;

अतएव, अब, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 20 सन् 2013) की धारा 40 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य आयोग नियमावली, 2015 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य आयोग (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2021

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य आयोग (द्वितीय संशोधन) नियमावली, संक्षिप्त नाम
2021 कही जायेगी। और प्रारम्भ

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 3 का संशोधन 2—उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य आयोग नियमावली, 2015 में, नियम 3 में, उपनियम (17) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:—

“(18) आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने अथवा अध्यक्ष या सदस्य के विरुद्ध जाँच संस्थित किये जाने की स्थिति में, राज्य सरकार, अस्थायी व्यवस्था के रूप में आयोग के किसी अन्य सदस्य को आयोग के सदस्य के रूप में अपने कृत्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करने के साथ ही साथ आयोग के अध्यक्ष के कृत्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिये प्राधिकृत कर सकती है।”

आज्ञा से,
वीना कुमारी
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 04/XXIX-6-2022-115 Sa-2014, dated January 3, 2022:

No. 04/XXIX-6-2022-115 Sa-2014

Dated Lucknow, January 3, 2022

WHEREAS notification no. 1747/XXIX-6-2021-115 Sa-14, dated October 7, 2021 was published for inviting objections and suggestions from general public as required under sub-section (1) of section 40 of the National Food Security Act, 2013 (Act no. 20 of 2013);

AND, WHEREAS, no objection and suggestion has been received in pursuance of the aforesaid notification;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under section 40 of the National Food Security Act, 2013 (Act no. 20 of 2013) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh State Food Commission Rules, 2015.

THE UTTAR PRADESH STATE FOOD COMMISSION (SECOND AMENDMENT) RULES, 2021

Short title and commencement 1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh State Food Commission (Second Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the *Gazette*.

Amendment of rule 3 2. In Uttar Pradesh State Food Commission Rules, 2015, in rule 3 *after* sub-rule (17) the following sub-rule shall be *inserted*, namely:-

“(18) In the situation of a vacant post of the Chairman of the Commission or an inquiry being instituted against the Chairman or Member, the State Government may, as a temporary arrangement, authorize any other Member of the Commission to discharge the functions and duties of the Chairman of the Commission along with discharging of his functions and duties as the Member of the Commission.”

By order,
VEENA KUMARI,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 575 राजपत्र-2022-(1261)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 8 सा० खाद्य तथा रसद-2022-(1262)-600 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।